

21145

B. Com. (Final Year) Examination, 2021

(New Course)

(Accounting)

Paper : First

INCOME TAX LAW & PRACTICE

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 60

नोट : सभी खण्ड निर्देशानुसार हल कीजिए। सभी खण्डों के अंक खण्डों के समक्ष अंकित हैं।

Note: Attempt all sections as directed. Marks are indicated against each section.

खण्ड-अ

Section-A

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

5×2=10

(Short Answer Type Questions)

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

Note: Attempt all **five** questions. Each question carries 2 marks.

1. आकस्मिक आय को परिभाषित कीजिए।

Define Casual Income.

अथवा

Or

करदाता को परिभाषित कीजिए।

Define Assessee.

2. वेतन से आय से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by income from salary?

अथवा

Or

मकान किराया भत्ता की चर्चा कीजिए।

Discuss House Rent Allowance.

3. व्यापार की परिभाषा दीजिए।
Define the term 'Business'.

अथवा
Or

फर्म में 'पुस्तक लाभ' को समझाइए।
Explain 'Book-Profit' in the firm.

4. उन हानियों के नाम बताइए, जिन्हें आगे ले जाया जा सकता है।
Name the losses, which can be carried forward.

अथवा
Or

दीर्घकालीन पूँजी हानियों को समझाइये।
Discuss long term capital losses.

5. आयकर के अग्रिम भुगतान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on 'Advance Payment of Tax'.

अथवा
Or

वे कौन-से भुगतान हैं, जिनसे उद्गम स्थान पर कर काटा जाता है?
What are the payments, on which tax is deducted at source?

खण्ड-ब
Section-B

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)
(Long Answer Type Questions)

5×10=50

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

Note: Attempt all five questions. Each question carries 10 marks.

6. 'आय' को परिभाषित कीजिए तथा सकल कुल आय तथा कुल आय में अन्तर बताइए।
Define 'Income'. Distinguish between Gross Total Income (GTI) and Total Income.

अथवा
Or

ऐसी दस आय की मदों को समझाइए, जो कुल आय की गणना में नहीं जोड़ी जायेगी?
Explain any ten items, which are not included in computing of Total Income?

7. पूर्णतया करमुक्त भत्तों की विवेचना कीजिए।

Describe the fully tax-free allowances.

अथवा

Or

मिस्टर 'X' दो मकानों का स्वामी है, जिन्हें वह स्वयं के रहने के काम लाता है। गत वर्ष 2019-20 के लिए उसने इन मकानों के सम्बन्ध में निम्न जानकारी प्रदान की।

	मकान-I (₹)	मकान-II (₹)
नगरपालिका मूल्यांकन	8,00,000	2,00,000
उचित किराया	1,00,000	2,40,000
नगरपालिका कर चुकाया	10,000	30,000
अग्नि बीमा प्रीमियम	1,000	2,000
मकान निर्माण के लिए गए ऋण पर ब्याज	60,000	3,00,000
अन्य आय : ₹ 2,50,000		

उसकी कुल आय की गणना कीजिये।

Mr. 'X' is the owner of two houses, which he uses for his residential purposes. He submits the following information in respect of these houses for the provisions year 2019-20.

	House-I (₹)	House-II (₹)
Municipal valuation	8,00,000	2,00,000
Fair rent	1,00,000	2,40,000
Municipal tax paid	10,000	30,000
Fire Insurance premium	1,000	2,000
Interest on loan is taken for the construction of house	60,000	3,00,000
Other income : ₹ 2,50,000		

Compute his total income.

8. एक व्यापारी के लाभों की गणना करने में अस्वीकृत व्ययों का वर्णन कीजिए।

What deduction are disallowed to a businessman in computing his profits.

अथवा

Or

मि० शंकरलाल की आय का विवरण निम्न प्रकार है—

(a) उन्होंने ₹ 1,000 प्रति माह पर एक मकान किराये पर लिया एवं इसे पुनः ₹ 1,600 प्रति माह किराये पर उठा दिया। इसके अतिरिक्त उनके निजी स्वामित्व के मकान से भी ₹ 5,000 किराया प्राप्त हुआ।

- (b) एक भारतीय कम्पनी से लाभांश ₹ 4,000 सकल।
- (c) सट्टे के व्यापार से लाभ ₹ 6,000 एवं क्रिकेट के सट्टे (जुए) से आय ₹ 500।
- (d) पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आय ₹ 10,000; यह आय भारत में नहीं लाई गई। कानपुर में स्थित कृषि भूमि से आय ₹ 18,000।
- (e) विधानसभा सदस्य के रूप में वेतन ₹ 30,000 एवं दैनिक भत्ते ₹ 4,000।
- (f) हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में हिस्सा ₹ 8,500।
- (g) सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश ₹ 6,000।

अन्य साधनों से आय ज्ञात कीजिए।

Mr. Shankar Lal's income particulars are as under :

- (a) He took a house on the rent of ₹ 1,000 per month and let it out again for ₹ 1,600 per month. Besides it he received ₹ 5,000 rent from his ownership house.
- (b) Dividend from an Indian Company ₹ 4,000. (Gross)
- (c) Speculation business profit ₹ 6,000 and ₹ 500 from cricket gambling.
- (d) Agricultural income in Pakistan ₹ 10,000 was not brought in India. ₹ 18,000 income from agricultural land situated at Kanpur.
- (e) Salary as an M.L.A. ₹ 30,000 and daily allowances ₹ 4,000.
- (f) Share in H.U.F. income ₹ 8,500.
- (g) Dividend received ₹ 6,000 from Co-operative Society.

Compute income from other sources.

9. हानियों को आगे ले जाने तथा उनकी पूर्ति के प्रावधानों को समझाइए।

Explain the provisions regarding carry forward and set-off of losses.

अथवा

Or

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निम्न में से किन्हीं दो कटौतियों को समझाइए—

- (i) धारा 80(C)
- (ii) धारा 80(G)
- (iii) धारा 80(D)
- (iv) धारा 80(DD)

Discuss any **two** of the following deductions :

- (i) Section 80(C)

- (ii) Section 80(G)
- (iii) Section 80(D)
- (iv) Section 80(DD)

10. भारतीय आयकर विधान से सम्बन्धित आयकर पदाधिकारियों के कार्यों का वर्णन कीजिए।
Describe the functions of the Income Tax Authorities related to Income Tax Act.

अथवा

Or

कमिश्नर (अपील) के यहाँ अपील की कार्यविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Describe briefly the procedure of an appeal to the Commissioner (Appeals).